



सराहनीय कार्य थाना शिवरतनगंज

पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के घर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह थाना शिवरतनगंज मय हमराही, उ0नि0 तनुज पाल चौकी प्रभारी इन्हौना थाना शिवरतनगंज द्वारा तलाश वांछित अपराधी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना संडीला जनपद हरदोई का 25 हजार रुपये का ईनामिया व वांछित अभियुक्त शेखनगांव मोड़ राजा फत्तेपुर गंदा नाला के पास मौजूद है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शिवरतनगंज मय टीम द्वारा अभियुक्त को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। जिससे उप निरीक्षक उपेन्द्र प्रताप सिंह के हाथ में गोली लगने से घायल हो गये। आत्मरक्षार्थ प्र0नि0 शिवरतनगंज, उ0नि0 तनुज पाल द्वारा अपने-अपने सर्विस पिस्टल से फायर किया गया जिससे पैर में गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर गया। घायल बदमाश से पूछने पर अपना नाम इंशाद उर्फ इशात पुत्र गफूर नि0 दिलावलगढ़ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व तमंचे की नाल से 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त थाना संडीला जनपद हरदोई के मु0अ0सं0 587/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट का वांछित व 25 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त है। थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान- शेखनगांव मोड़ राजा फत्तेपुर गंदा नाला, दिनांक:- 30.08.2021, समय:- 11:35 बजे रात्रि

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- इंशाद उर्फ इशात पुत्र गफूर नि0 दिलावलगढ़ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी-

- 01 अदद तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 209/21 धारा 307 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 210/21 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. प्र0नि0 धीरेन्द्र सिंह 2. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह 3. उ0नि0 तनुज कुमार पाल 4. हे0का0 महेश कुमार 5. हे0का0 जितेन्द्र सिंह 6. हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद 7. का0 कुलदीप वर्मा 8. का0 विनय कुमार 9. का0 योगेन्द्र कुमार 10. का0 विपिन तिवारी 11. का0 सौरभ वर्मा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 587/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना संडीला जनपद हरदोई। (में वांछित व 25 हजार रुपये का ईनामिया)
2. मु0अ0सं0 709/19 धारा 5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 19/5/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना संडीला जनपद हरदोई।